

## गृह कार्य .....जारी

### दिए गए गृह कार्य को करने में कितना समय लगता है?

अगर एक सैकेंडरी स्तर के ई०एस०एल० छात्र को प्रति रात्रि ढाई घंटे का गृह कार्य दिया जाता है, उन्हें दिए गए कार्य (असाइनमेन्ट) को पूरा करने में 5 से 8 घंटे लग सकते हैं।

### गृह कार्य किसे करना चाहिए?

छात्र को ही गृह कार्य करना चाहिए।

कुछ अभिभावक यह सोचते हैं कि बड़े भाई-बहन की मदद अच्छे ग्रेड प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। मदद का अर्थ निर्देशों को समझने में आसानी प्रदान करने से होना चाहिए।

शिक्षक कक्षा के कार्य तथा गृह-कार्य दोनों ही प्रकार के कार्य देते हैं। दोनों ही अंकों में गिने जाते हैं। अगर छात्र को स्वतंत्र रूप से गृह कार्य करने का पर्याप्त अभ्यास न हो, तो हो सकता है कि कुल मिलाकर उनका नतीजा अच्छा न हो।

ज्यादा अकादमिक स्वरूप की विषय सामग्री को समझने में ट्यूटर उन छात्रों की मदद कर सकते हैं, जिनकी अंग्रेजी का स्तर अच्छा है।



### कम्प्यूटरों का उपयोग

अनेक सैकेंडरी कक्षाओं के छात्रों को विद्यालय कार्य करने के लिए कम्प्यूटर उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आपके घर पर कम्प्यूटर नहीं है, तो आपकी सार्वजनिक तथा विद्यालय की लाइब्रेरी में कम्प्यूटर होगा जिन्हें छात्र उपयोग कर सकते हैं।



### “Homework in BC Secondary Schools”

[Hindi]


यह ब्रोशर वैनकूवर स्कूल बोर्ड के सैटलमेंट वर्कर्ज (VSB SWIS) द्वारा प्रायोजित किये गए कई ब्रोशरों में एक है। इसकी रचना कुछ ई.एस.एल. (ESL/ELL) शिक्षकों तथा वैनकूवर स्कूल बोर्ड के मल्टीकल्चरल लिएजों वर्कर्ज (VSB MCLW) ने की है।

## बी सी सैकेंडरी विद्यालयों में गृह कार्य (होम वर्क) को समझना



यह ब्रोशर कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सरकार से धन के माध्यम से संभव बनाया गया है।

ग्रेड 8 से 12 तक



### गृहकार्य के संबंध में शिक्षा पर बीसी मंत्रालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

शिक्षा मंत्रालय बीसी सैकेंडरी स्तर के छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करता है।

ये दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:

#### ग्रेड 8 से 12 ► प्रति रात्रि 1 से 2 घंटे का कार्य

अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों को अधिक समय लगेगा।

ग्रेड 6 से 12 तक के छात्रों को कम आयु के छात्रों की तुलना में अधिक गृहकार्य दिया जाता है।

### गृह कार्य के उदाहरण

- कक्षा में दिया गया कार्य पूरा करना।
- अंग्रेजी या मातृभाषा में एक निर्धारित समय के लिए कोई पुस्तक पढ़ना।
- अंग्रेजी में कोई विशिष्ट टेलीविजन कार्यक्रम देखना।
- विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करना।
- कक्षा संबंधी या सामूहिक प्रोजेक्ट पर सहपाठियों के साथ मिलकर कार्य करना।
- जर्नल प्रविष्टि लिखना।
- पाठ या उपन्यास में अध्याय को पढ़ना व उसका पुर्नपठन करना।

दिए गए विषय पर विचार करना या उसे प्रतिविवित करना अतः उसके बारे में लिखना।

- घटना चक्र या कहानी के क्रम का खाका खींचना।
- संगीत सुनना।

बीसी में, अध्यापक कार्य की मात्रा के बजाय कार्य की गुणवत्ता को अधिक मूल्यवान समझते हैं।

### गृह कार्य के उद्देश्य

गृह कार्य देने के कई कारण होते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र:

- अगले दिन अलग/नए कार्य के लिए तैयार रहें।
- बेहतर पाठक बनें।
- शब्द भण्डार में वृद्धि करें।
- भाषा कौशल का अभ्यास करें।
- लेख सुधारें।
- कौशलों को सीखें या उनका अभ्यास करें।
- किसी विषय या सामग्री के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी को बढ़ाएं।
- कहानी के विकास को समझने की क्षमता में सुधार करें (कहानी का खाका, कहानी के पात्रों, घटनाओं के कारण तथा प्रभाव तथा यह भविष्यवाणी करना की आगे क्या हो सकता है।)
- जोड़े बनाकर या समूह में एक साथ कार्य करना सीखें तथा उसका अभ्यास करें।